



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7]

नई दिल्ली, अप्रैल 3—अप्रैल 9, 2005, शनिवार/चैत्र 13—चैत्र 19, 1927

No. 7]

NEW DELHI, APRIL 3—APRIL 9, 2005, SATURDAY/CHAITRA 13—CHAITRA 19, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का०नि०आ० 25.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (भारी वाहन),
आवड़ी, चैन्ने-600 054
2. वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (आयुध),
आयुध निर्माणी (प्रशा. खंड),
यहुमैलाराम, जिला मेदक-502 205

[सं. 2(1)/98-रक्षा(रा.भा.-II)]

राजकिशोर मुखी भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th March, 2005

S.R.O. 25.—In pursuance of sub-rule(4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Directorate General of Quality Assurance, 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Controllorate of Quality Assurance
(Heavy Vehicles),
Avadi, Chennai—600 054
2. Senior Quality Assurance Establishment
(Armaments),
Ordnance Factory (Admin. Block), Yeddumailaram,
Medak Distt.—502 205.

[F. No. 2(1)98/D(OL-II)]

RAJKISHORE MUKHI BHATTACHARYA, Jt. Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह "ग" और समूह "घ" कानूनी कैटीन कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में कानूनी कैटीन कर्मचारिवृन्द के समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह "ग" और समूह "घ" कानूनी कैटीन कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2005 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. पर्यवेक्षक श्रेणी-1	1 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अनोद्योगिक	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14

ऐसे पर्यवेक्षक श्रेणी III/सहायक पर्यवेक्षक-सह-रोकडिया/लिपिक-सह-रोकडिया जिसने सोलह वर्ष नियमित सेवा की हो	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी —सदस्य (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी, जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकटवर्ती किसी स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

1	2	3	4	5
2. पर्यवेक्षक श्रेणी-III/सहायक पर्यवेक्षक-सह-रोकडिया/लिपिक सहरोकडिया/रोकडिया	7 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण :—1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	नहीं	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और लेखा या भंडार रखने या रोकड लेखा में एक वर्ष का डिप्लोमा	नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

6	7	8	9	10	11
<p>लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। नकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण : 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली और नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>					

12	13	14
<p>ऐसा रसोई सहायक या बिक्रीकर्ता/ बेचने वाला या परोसनेवाला/वैटर/बैरा जिसने चार वर्ष नियमित सेवा की हो।</p>	<p>पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी —सदस्य (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी, जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकटवर्ती किसी स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5
3. रसोइया	15 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्यौगिक	3050-75- 3950- 80-4590 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) खाना पकाने में प्रवीणता	नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

6

टिप्पणी :—1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पणी : 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

12	13	14
लागू नहीं होता	पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता
	(क) स्थापन का प्रधान	—अध्यक्ष
	(ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी	—सदस्य
	(ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकटवर्ती किसी स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी	—सदस्य

1	2	3	4	5
4. रसोई सहायक	1 (2005)* *कार्दभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रु.	अचयन

1022-11/05

5	7	8	9	10	11
<p>18 से 27 वर्ष के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक स्थिति की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी :— 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिल तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पणी : 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>नहीं</p>	<p>8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा व्यवसाय में छह मास का अनुभव।</p>	<p>नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>
12	13	14			
<p>ऐसा मसालची या वाशर बाय, जिसने, उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की हो।</p>	<p>पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—</p> <p>(क) स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष</p> <p>(ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी —सदस्य</p> <p>(ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकट-वर्ती किसी स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>			

1	2	3	4	5
5. विक्रेता/बेचने वाला	5 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसूचितवर्गीय अनौद्योगिक	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रु.	अचयन

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।	नहीं	8वीं कक्षा उत्तीर्ण और छह मास का अनुभव।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण :—1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण :—2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

12	13	14
ऐसा मसालची या वाशर बाय, जिसने, चार वर्ष नियमित सेवा की हो।	पुष्टि के लिए समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी —सदस्य (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकट-वर्ती स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
6. परोसने वाला/वैरा/वैटर	36 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रु.	अचयन

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।	नहीं	8वीं कक्षा उत्तीर्ण और छह मास का अनुभव।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी :—1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो अस्म, मेगलय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पणी :—2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

12	13	14
ऐसा मसालची या वाशर बाय, जिसने, उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की हो।	पुष्टि के लिए समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी —सदस्य (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकट- वर्ती स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
7. मसालची	3 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्यौगिक	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं	(i) प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण (ii) कार्य में प्रवीणता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

12	13	14
लागू नहीं होता	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकट-वर्ती स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी	लागू नहीं होता —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

1022-ए1/05

1	2	3	4	5
8. वाशरमैन/बाय	6 (2005)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अनुसचिवीय अनौद्यौगिक	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के मध्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं	(i) प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण (ii) व्यवसाय में प्रवीणता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पणी 2 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली और नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

12	13	14
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (क) स्थापन का प्रधान (ख) संबंधित स्थापन के दो अधिकारी (ग) अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापन का एक अधिकारी जिसके न हो सकने पर स्टेशन या निकट-वर्ती किसी स्टेशन पर स्थित किसी अन्य रक्षा स्थापन का एक अधिकारी	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./कैन्टीन/डीजीक्यूए/प्रशा./10/217/2005/डी(क्यूए)]

डा. परविन्दर कौर, उपसचिव

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)**(Directorate General of Quality Assurance)**

New Delhi, the 15th March, 2005

S.R.O. 26— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C' and Group 'D' Statutory Canteen Staff Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' and 'D' posts of Statutory Canteen Staff in the Department of Defence Production (Director General Quality Assurance) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Defence Production (Director General Quality Assurance Group 'C' and Group 'D' Statutory Canteen Staff Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1. Supervisor Grade-I	1* (2005) *Subject to variation dependant on work-load	General Central Service, Group 'C', Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			
8	9	10	11			
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion			
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
12	13	14				
Supervisor Grade III/Assistant supervisor-cum-Cashier/Clerk-cum-cashier with sixteen years of regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Member (c) An officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.				
1	2	3	4	5	6	7
2. Supervisor Gr. III/Asstt. Supervisor cum-Cashier Clerk-cum-Cashier/Cashier	7* (2005) *Subject to variation depending on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	18 years to 27 years (relaxable for Government servant upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government. Note 1— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in (and not the closing date prescribed for those in Assam, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division	Not applicable

6

of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2:—In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
Matriculation or equivalent with one year diploma in Book or store Keeping or Cash accounting.	No	Two years	50% by promotion and 50% by direct recruitment.

12	13	14
Kitchen Assistant or sales man/ Vendor or Server/Waiter/Bearer having four years of regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Members (c) An officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. Cook	15* (2005) *Subject to variation depending on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	18 years to 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government). Note—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except for the closing date prescribed for	No

1022-611/05

6

those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2:—In respect of posts, the appointments which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall, in each case will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
(i) Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment
(ii) Proficiency in cooking.			

12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Members (c) An officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Kitchen Assistant	1* (2005) *Subject to variation depending on work-load.	General Central Services, Group 'D' Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000.	Non-selection	18 years to 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government.)	No

6

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2:—In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Ex-changes, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Ex-changes are asked to submit the names.

8	9	10	11
8th class pass with six months experience.	No	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.
12	13	14	
Masalchi or Washerman/Boy with four years regular service in the grade	Group 'D' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Members (c) An Officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.	

1	2	3	4	5	6	7
5. Salesman/ Vender	5* (2005) *Subject to variation depending on work- load	General Central Service, Group 'D' Non- Ministerial, Non- Industrial	Rs. 2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000	Non- selection	Between 18 years to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instruc- tions issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applica- tions from candi- dates (except for the closing date pres- cribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divi- sion of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: —In respect of posts, the appoint- ment to which are made through the Employment Ex- changes, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Ex- changes are asked to submit the names.	No
<hr/>						
8		9		10		11
8th pass with six months experience.		No		Two years for direct recruits		By promotion failing which by direct recruitment

12	13	14
Masalchi or Washerman/Boy with four years regular service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Member (c) An officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
6. Server/Bearer/Waiter	36* (2005) *Subject to variation depending on work-load	General Central Services, Group 'D' Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-selection	Between 18 years to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government)	No

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2:—In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

1022-11/05

8	9	10	11
8th class pass with six months experience.	No	Two years for direct recruits	By promotion failing which by direct recruitment
12	13	14	
Masalchi or Washerman/Boy with four years regular service in the grade	Group 'D' Departmental Promotion Committee, consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Member (c) An Officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.	

1	2	3	4	5	6	7
7. Masalchi	3* (2005) *Subject to variation depending on work-load	General Central Services, Group 'D' Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 years to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government).	No
Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).						

6

Note 2:—In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
(i) Primary School pass (ii) Proficiency in the job	Not applicable	Two years	100% direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Members (c) An Officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
8. Washerman/ Boy	6* (2005) *Subject to variation depending on work-load	General Central Services, Group 'D' Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 years to 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years as per orders or instructions issued by the Central Government.	No
<p>Note 1:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except the</p>						

6

closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2:—In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
(i) Primary School pass (ii) Proficiency in the job	Not applicable	Two years	100% direct recruitment
12	13	14	
Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— (a) Head of the establishment —Chairman (b) Two Officers from the concerned establishment —Members (c) An Officer from other Directorate General of Quality Assurance establishment, failing which an Officer from other Defence establishment located in the station or nearby station. —Member	Not applicable	

[F. No. A/86320/RR/Canteen/DGQA/Adm-10/217/2005/D (QA)]

Dr. PARVINDER KAUR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2005

का.नि.आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना में फोरमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, फोरमैन, समूह “ख” पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
फोरमैन	29* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ राजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	7450-225-11500 रु.	अचयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

1022-e11/65

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

66.66% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और 33.34 % प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

6500—10500 रु. के वेतनमान के ऐसे सहायक फोरमैन, जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिसने मूल काडर/विभाग में 6500—10500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष तक सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से यांत्रिकी/विद्युत शिक्षण में इंजीनियरी की डिग्री ; और

(ii) वायुयान यांत्रिकी, बिजली मिस्त्री, बड़ई, बेतार प्रचालक यांत्रिकी, रेडार यांत्रिकी, ताम्रकार और शीट धातु कर्मकार, उपकरण मिस्त्री, शस्त्रसाज, लौहार और झलाईगर, फोटो यांत्रिकी, मशीन औजार सेटर और प्रचालक, परिवहन यांत्रिकी फिटर के व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव ; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समतुल्य से यांत्रिकी/विद्युत शिक्षण में इंजीनियरी का डिप्लोमा; और

(iv) वायुयान यांत्रिकी, बिजली मिस्त्री, बड़ई, बेतार प्रचालक यांत्रिकी, रेडार यांत्रिकी, ताम्रकार और शीट धातु कर्मकार, उपकरण मिस्त्री, शस्त्रसाज, लौहार और झलाईगर, फोटो यांत्रिकी, मशीन औजार सेटर और प्रचालक, फिटर के व्यवसाय में चार वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :

1. एयर आफिसर कमांडिंग/आफिसर कमांडिंग —अध्यक्ष
2. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य रैंक का प्रशासन का भार साधक आफिसर —सदस्य
3. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य रैंक का विभाग/स्थापन से असंबद्ध आफिसर —सदस्य

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[वायु मुख्यालय/23049/तकनीकी पर्यवेक्षक/पी.सी.-4/75/आर.आर./रक्षा. (नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2005

S.R.O. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rule regulating the method of recruitment to the post of Foreman in the Indian Air Force, Ministry of Defence namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This rule may be called the Indian Air Force Civilian Technical Supervisory Post Group 'B' (Non-Gazetted) Rule, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6
Foreman	29* (2004) *Subject to variation depending on work load.	General Central Services, Group 'B' Non Gazetted Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 7450-225-11500	Non-selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not applicable	Not applicable	No
Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, from which promotion/deputation/absorption to be made
10	11	12
Not applicable	66.66 per cent by promotion failing which by deputation and 33.34 per cent by deputation	<p>Promotion : Assistant Foreman in the pay scale of Rs. 6500—10500) with 2 years regular service in the grade.</p> <p>Note :—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government/State Governments or Union Territories.</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :—</p> <p>(i) Degree in Engineering in Mechanical/ Electrical discipline from a recognized university or equivalent; and</p> <p>(ii) two years' experience in the trade of Air Craft Mech., Electrician, Carpenter, Wireless Operator Mechanic, Radar Mechanic, Coppersmith & Sheet metal</p>

10	11	12
		<p>worker, Instrument Repairer, Armourer, Blacksmith and Welder, Photo Mech. Machine Tool Setter and Operator, Fitter Mechanical Transport. or</p> <p>(i) Diploma in engineering in Mechanical/ Electrical discipline from a recognized University/Institute or equivalent; and</p> <p>(ii) four years experience in the trade of Air Craft Mech, Electrician, Carpenter, Wireless Operator Mechanic, Radar Mechanic, Coppersmith & Sheet metal worker, Instrument Repairer, Armourer, Blacksmith and Welder, Photo Mech, Machine Tool Setter and Operator, Fitter</p> <p>Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) :—</p> <p>1. Air-Officer-Commanding —Chairman</p> <p>2. Officer-in-Charge Administration of the rank of Squadron Leader or equivalent —Member</p> <p>3. An officer of the rank of Squadron Leader or equivalent and unconnected with the Department/establishment. —Member</p>		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[Air HQ/23049/Tech. Supervisor/PC-4/75/RR/(Appts)]

R. B. JOSHI, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2005

का.नि.आ. 28.—दिनांक 17-1-2004 के भारत के राजपत्र, भाग II खंड 4 में प्रकाशित का.नि.आ. सं. 08, दिनांक 22-12-03 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी।

नियम 1 के उप नियम 1 में—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ शब्दों तथा अंकों में :—

"भर्ती नियम 2003"

को

"भर्ती नियम 2004" के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए डी एम/भर्ती नियम/007/(डब्ल्यू ई एस ई ई) 373/डी एस (कोआर्ड)/2005]

1022-91/05

-टी. एस. आर. स्वामी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd March, 2005

S.R.O. 28.—The following amendment shall be made in S.R.O. No. 8 dated 22-12-2003 published in the Gazette of India, Part-II, Section-IV, dated 17-01-2004 :—

In Sub-rule (1) of Rule 1—Short title and commencement, the words and figure:—

“Recruitment Rules, 2003”

shall be substituted by

“Recruitment Rules, 2004”

[F. No. ADM/Rectt. Rules/007/WESEE/373/DS(Coord)/2005]

T. S. R. SWAMY, Chief Administrative Officer